



Department of Technical Education, Rajasthan
Govt. Polytechnic College, Jodhpur



एक भारत श्रेष्ठ भारत

“ पधारो म्हारे देश ” - सूर्य नगरी जोधपुर



Exploring Rajasthan Part 2 (Jodhpur)

(By Deepak Singh Kachhawah , Sr.Lecturer Electrical, Govt Polytechnic College
Jodhpur

Vinod Chouhan,Lecturer Electrical, Govt Polytechnic College Jodhpur)

The E-lecture on Exploring Rajasthan Part 2 (Jodhpur) is prepared on the instruction and guidelines issued by AICTE in conducting the “Ek Bharat Shrestha Bharat” activity in all the AICTE affiliated technical institutions to build mutual bonding and harmony in nation. Presently in this Covid 19 pandemic situation, this E-lecture was prepared and sent to four paired institutions of ASSAM state to circulate among the students for developing the “Ek Bharat Shrestha Bharat concept :-

The institutes are:-

- 1.Tezipen University, ASSAM.
- 2.Dhemji University, ASSAM.
- 3.Sibsagar Polytechnic, ASSAM.
- 4.Giruananda Choudhary Institute of Management and Technology, GIMT, Tezpur, ASSAM.

You Tube Link – Channel-GPC Jodhpur : <https://youtu.be/MI7tFIBnBuQ>


एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम, भारत के लिए एक राष्ट्र की अवधारणा एवं सांस्कृतिक विविधता पर आधारित है. इस अभियान का उद्देश्यक देशके लोगों के बीच भावनात्मक एकता के परम्पतरागत ताने-बाने को और मजबूत बनाना है.सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य , देश में आंतरिक रूप से व्याप्त सांस्कृतिक अंतर को पाटकर अलग-अलग राज्यों के लोगों के बीच आपसी अंतःक्रिया को बढ़ावा देना है ।

क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य, रंग रंगीले राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर, जोधपुर,जो अपने आतिथ्य सत्कार एवं मीठी बोली के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है । जोधपुर ,जो कि Gateway to THAR भी कहलाता है , अपने ढेरों शानदार महलों, दुर्गों और मन्दिरों वाला प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है।



उत्कृष्ट हस्तकलाओं,कसीदाकारी की हुई जूतियों,बंधेज के कपड़ों, “ छित्तर ” से बनी कलाकृतियों आदि के बीच अपने ढेरों शानदार महलों, दुर्गों और मंदिरों वाला यह शहर अत्यंत आकर्षक और

प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। कलात्मक रूप से बनी हुई रंगबिरंगी पोशाकें पहने हुए लोगों को देखकर प्रतीत होता है कि जोधपुर की जीवनशैली असाधारण रूप से सम्मोहित करने वाली है। पुरुषों द्वारा पहनी हुई रंगीन पगड़ियाँ शहर में चहुँ ओर रंग बिखेर देती हैं। तालाबों और बावडियों का शहर, जो अपने प्राचीन जल प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण है।



सूर्यनगरी की असंख्य विशेषताओं में से एक मुख्य विशेषता है यहाँ का बलुआ पत्थर, जिसे स्थानीय भाषा में " छित्तर " कहा जाता है। इसी छित्तर के पत्थर पर केन्द्रित करते हुए यह दर्शाया गया है कि यहाँ के भवन निर्माण हेतु इस पत्थर का प्रयोग बहुतायत किया जाता है। जोधपुर शहर के पास ही इस पत्थर की खानें हैं जहाँ से इस पत्थर का विभिन्न रूपों में उत्खनन किया जाता है।



इस पत्थर का उपयोग भवन निर्माण में दीवार के साथ ही साथ छत निर्माण में पट्टियों ,फर्श की टाइलों , बीमों , आर्कों , दरवाजे और खिडकियों की फ्रेमों , खम्बों सहित विभिन्न प्रकार के कलात्मक उपयोगों जैसे कलात्मक फव्वारे , लैंप-शेडों, रेलिंगों, मूर्तियों, मंदिरों के कलात्मक गुम्बदों एवं बगीचे की कुर्सियों आदि के निर्माण में किया जाता है ।





कुछ विश्वस्तरीय भवन जहां इस पत्थर का उपयोग हुआ है ,जैसे मेहरानगढ़ का किला, उम्मेद भवन पैलेस , विधान सभा भवन जयपुर, ओमान के सुलतान का महल , होटल मौर्य शोरेटन दिल्ली, जोधपुर रेलवे स्टेशन, राजस्थान उच्च न्यायालय भवन जोधपुर, उम्मेद हेरिटेज आवासीय कॉलोनी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) जोधपुर, अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) जोधपुर आदि ।

हमारे राज्य में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए हमारा तकनीकी शिक्षा विभाग,राजस्थान युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। राजस्थान का तकनीकी शिक्षा विभाग सिविल , मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स (फाइबर), इंस्ट्रुमेंटेशन, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और केमिकल आदि के साथ-साथ गैर-इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों जैसे टेक्सटाइल जैसे कई शाखाओं में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करता है। डिजाइन, इंटीरियर डेकोरेशन, कॉस्ट्यूम डिजाइन, कमर्शियल आर्ट भी साथ-साथ चल रहे हैं।



-प्रस्तुतकर्ता-

दीपक सिंह कच्छवाहा,व.प्रवक्ता (विधुत),

विनोद चौहान,प्रवक्ता (विधुत),